

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23112024-258832
SG-DL-E-23112024-258832असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 266
No. 301]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946	[N. C. T. D. No. 266

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

फा.सं. जीजीएसआईपीयू/कॉर्ड/ओआरडी.7/77वीं बीओएम/अमेन्ड/2022-23/343.—गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ वि"वविद्यालय अधिनियम 1998(1998 का अधिनियम 9) की धारा 27(2) के प्रावधानों के अनुपालन में, प्रबन्ध मंडल, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ वि"वविद्यालय ने 14.06.2022 को आयोजित अपनी 77 वीं बैठक में कार्यसूची की मद सं 77.07 के संकल्प द्वारा वि"वविद्यालय के अध्यादे"1 7: 'विद्यार्थियों के प्रव्रजन से संबंधित' में निम्नलिखित सं"गोधनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है :

विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
1. अन्य वि"वविद्यालयों/महाविद्यालयों से अध्ययनों के वि"वविद्यालय-स्कूल, वि"वविद्यालय सम्पोषित महाविद्यालयों अथवा संबद्ध संस्थाओं में कोई भी प्रव्रजन अनुमत नहीं किया जायेगा अर्थात् सामान्य परिस्थितियों में अतः -वि"वविद्यालयीय प्रव्रजन अनुमत नहीं होगा।	(i) वि"वविद्यालय के विद्यापीठों (स्कूल) तथा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ वि"वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में चलाये जा रहे किसी भी कार्यक्रम में, अंतरा एवं अतः वि"वविद्यालय प्रव्रजन अनुमत नहीं होगा।

विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
<p>कुलपति द्वारा गठित अकादमिक (विद्या) परिषद् के तीन सदस्यों वाली उपसमिति की सिफारिशों पर, इसकी अनुमति केवल विज्ञापन परिस्थितियों के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष/तीसरे सत्र के प्रारम्भ में ही कुलपति द्वारा निम्न शर्तों पर दी जा सकती है:</p> <p>(i) आवेदक छात्र/अभ्यर्थी ने प्रथम वर्ष के दोनों सत्रों (छमाहियों) के प्रत्येक परीक्षा पत्र अथवा प्रथम वर्ष के सभी परीक्षा पत्र, जैसा भी कार्यक्रम विज्ञापन पर लागू होता हो, उत्तीर्ण कर लिया हो/लिये हों।</p> <p>(ii) किसी भी कार्यक्रम विज्ञापन के प्रथम और द्वितीय वर्ष में किसी भी प्रकार का अन्तराल नहीं हो अर्थात् कार्यक्रम के निष्पादन में निरन्तरता बनी रही हो।</p> <p>(iii) किसी भी ऐसे छात्र/अभ्यर्थी, जिसको प्रथम वर्ष के किसी भी एक परीक्षा पत्र अथवा प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा दूसरे सत्र के परीक्षा पत्र में पुनः परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) देनी प्राप्त होती है, को प्रवजन की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(iv) छात्र को गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विज्ञापनविद्यालय के उस प्रवेश-पात्रता मापदण्ड पर भी खरा उतरना चाहिये जो मूलतः छात्रों के उस वर्ग (बैच) पर लागू होता है जिसके लिये प्रवजन माँगा जा रहा है।</p> <p>किसी भी परिस्थिति में, उपरोक्त शर्तों को पूर्ण न करने वाले छात्र पर प्रवजन के संबंध में विचार ही नहीं किया जायेगा।</p> <p>किसी भी संस्था/महाविद्यालय से, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विज्ञापनविद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवजन अनुमत नहीं होगा।</p> <p>2. तथापि विज्ञापनविद्यालय अध्ययन विद्यालय चलाए जा रहे या सम्बद्ध संस्थानों से प्रवजन (परस्पर) पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा:</p> <p>(क) अकादमिक परिषद् के पूर्व अनुमोदन सहित अति अनुकम्पा आधार पर देने के अलावा अध्ययन के प्रथम वर्ष के दौरान किसी प्रवजन की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(ख) एक ही कार्यक्रम/विषय के द्वितीय वर्ष/तीसरे सेमिस्टर में विज्ञापनविद्यालय अध्ययन विद्यालय से विज्ञापनविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या सम्बद्ध संस्थानों या इसके विपरीत एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवजन पर</p>	<p>(ii) गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विज्ञापनविद्यालय के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में किसी अन्य संस्थान/महाविद्यालय से किसी भी प्रकार के प्रवजन की अनुमति नहीं होगी।</p>

विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
<p>निम्नलिखित मामलों में विचार किया जा सकता है:</p> <p>(i) (क) वि"वविद्यालय के अध्ययन विद्यालयों/क्रमानुसार संस्थानों के संबंधित संकाय अध्यक्ष/निदेशक/प्रधानाचार्य दोनों की राय में जब "अनापत्ति" मिलने पर एक ही कार्यक्रम/विषय में विद्यार्थी(यों) के आपसी प्रव्रजन की अनुमति दी जाए, जैसा लागू हो। उक्त प्रव्रजन वि"वविद्यालय कुल-सचिव के अनुमोदन से करने दिया जाएगा।</p> <p>(ख) यदि उपलब्ध खाली स्थानों से अधिक संख्या में आवेदन सम्बद्ध संस्थानों से वि"वविद्यालय के अध्ययन विद्यालयों में प्रव्रजन चाहते हैं तो योग्यता के आधार पर प्रव्रजन की अनुमति की जाएगी।</p> <p>(ii) वि"वविद्यालय के अध्ययन विद्यालय से विद्यार्थियों को अन्य संस्थानों अथवा इसके विपरीत प्रव्रजन उन्हीं कार्यक्रम /विषयों में वास्तविक परिस्थितियों के अंतर्गत करने दिया जाए ब"त कि वे उस वि"वविद्यालय के अध्ययन सदन/संस्थान द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' लाते हैं, जहां उन्होंने पिछले सेमिस्टर में अध्ययन किया है और उस संस्थान/वि"वविद्यालय के अध्ययन सदन में भी खाली स्थान है जहां वे प्रव्रजन चाहते हैं।</p> <p>उक्त प्रव्रजन की अनुमति कुलपति के पूर्व अनुमोदन पर ही प्रदान की जाएगी।</p> <p>(iii) छात्र के एक सम्बद्ध संस्थान से दूसरे सम्बद्ध संस्थान में प्रव्रजन के मामले में शुल्क की संरचना अपरिवर्तित रहेगी। तथापि, सम्बद्ध संस्थानों से वि"वविद्यालय के अध्ययन सदनों में प्रव्रजन के मामले में विद्यार्थी को उसी कार्यक्रम/विषय में अध्ययन के लिए वि"वविद्यालय के अध्ययन विद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।</p> <p>3. अकादमिक परिषद् अपवाद परिस्थितियों के अंतर्गत या अप्रत्याशित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखित रूप से अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इस अध्यादेश में किसी छूट पर विचार कर सकती है।</p>	

यह संशोधन, प्रबंध मंडल द्वारा दी गई स्वीकृति तिथि, अर्थात् 14.06.2022 से प्रभावी होगा।

आदेशकर्ता,

डॉ० कमल पाठक, कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th November, 2024

F.No. GGSIPU/Coord/Ord.7/77th BOM/Amend/2022-23/343.— In pursuance of the provisions of Section 27 (2) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 77th meeting held on 14.06.2022 vide resolution to agenda item no. 77.07 approved the following amendments in the **Ordinance 7: 'Migration of Students'** of the University:

Existing Provision	Amended Provision
<p>1. No Migration shall be allowed from other Universities/ Colleges to the University School of Studies, University maintained colleges or affiliated institutions i.e. no inter-university migration shall be allowed in normal circumstances.</p> <p>It can be allowed in the beginning of 2nd year/ 3rd Semester only under special circumstances by the Vice-Chancellor, on the recommendations of a sub-committee, comprising of three members of Academic Council, constituted by the Vice-Chancellor subject to the following conditions:</p> <p>(i) The applicant student/ candidate must have cleared each paper of both the semester of 1st year/ or all papers of the 1st year as it applies for a particular programme.</p> <p>(ii) There should not be any gap between the 1st year and the 2nd year of a particular programme meaning thereby that the pursuance of the programme remains continuous.</p> <p>(iii) A student/ candidate who has compartment in any one paper of the 1st year or either of the 1st or 2nd semester of the 1st year shall not be permitted for migration.</p> <p>(iv) The student must also fulfill the eligibility criteria of admission of Guru Gobind Singh Indraprastha University originally applied to the batch of students to which migration is being sought.</p> <p>Under no circumstances a student, not fulfilling the above conditions would be considered for migration.</p> <p>No Migration is permitted into the medical colleges of the Guru Gobind Singh Indraprastha University from any institution/ college.</p> <p>2. Migration (inter-se) from the University Schools of Studies, maintained institutions or affiliated institutions shall, however be considered as under :-</p> <p>a) No migration shall be allowed during first year of studies except on extreme compassionate grounds, with the prior approval of Academic Council.</p> <p>b) Migration from University School of Studies to University maintained institutions or affiliated institutions and vice-versa or from one institution to another institution in the same programme/ discipline in the second year / third semester can be considered in respect of following cases:-</p> <p>(i) (a) Mutual migration of the student(s) in the same programme/ discipline may be allowed when 'No Objection' is conveyed by both the Deans/Directors/Principals, concerned of the University School of Studies/respective institutions, as applicable. Such migration shall be allowed with the approval of the Registrar of the University.</p>	<p>(i) No Migration Intra and Inter-University is permitted in any of the programmes being conducted in University School of Studies as well as in the affiliated Colleges/ Institution in Guru Gobind Singh Indraprastha University.</p> <p>(ii) No Migration is permitted into the medical colleges of the Guru Gobind Singh Indraprastha University from any institution/ college.</p>

Existing Provision	Amended Provision
<p>(b) In case applicants seeking migration from affiliated institutions to University School of Studies are more than the vacancies available, migration will be allowed on the basis of merit</p> <p>(ii) Under genuine circumstances migration of the students from University School of Studies to another institution and vice-versa or from one institution to another institution in the same programme/discipline may be allowed provided that the 'No Objection Certificate' is issued by the University School of Studies/ institution where he or she is studying in the previous semester and also vacancy exists in the institution/ University School of Studies where he or she is seeking migration.</p> <p>Such migration shall be allowed only with the prior approval of Vice-Chancellor.</p> <p>(iii) In case of migration of the student from one affiliated institution to another institution, the fee structure shall remain unchanged. However, in case of migration from affiliated institutions to University Schools of Studies, the candidate is required to pay the fee as prescribed in the University Schools of Studies for the same programme / discipline.</p> <p>3. Under exceptional circumstances or in order to take care of unforeseen situations, the Academic Council may consider any relaxation in this Ordinance for reasons to be recorded in writing.</p>	

This amendment shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 14.06.2022.

By Order,
Dr. KAMAL PATHAK, Registrar